



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 15) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 नवम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(मोती0)-08-03/2013/1777—श्री हरि शंकर श्रीवास्तव (आई0डी0-1847), अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, बाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, बाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरुद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने, स्थानीय सामग्री प्रयोग के वाबजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप करने आदि वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आदि आरोपों के लिए श्री हरि शंकर श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, बाल्मीकिनगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में श्री हरि शंकर श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, बाल्मीकिनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 15-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>